



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 30—मई 6, 2011 (वैशाख 10, 1933)

No. 18]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 30—MAY 6, 2011 (VAISAKHA 10, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the  
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 2011

सेना शाखा

सं. 167, दिनांक 9 मार्च 2011—राष्ट्रपति महोदया, यथासंशोधित  
थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्तियां  
करते हैं:—

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

फ्ला लेफ्टि अश्वनी चौहान (एमएस-16315एन), एएमसी, 28 जुलाई  
2009

फ्ला लेफ्टि नितेश भार्गव (एमएस-16320वाई), एएमसी, 28 जुलाई  
2009

फ्ला लेफ्टि मुरारी एम (एमएस-16324पी), एएमसी, 10 अगस्त  
2009

फ्ला लेफ्टि अमित कौशल (एमएस-16325एक्स), एएमसी, 10 अगस्त  
2009

फ्ला लेफ्टि अंधारे रविन्द्र श्रीमंत (एमएस-16326ए), एएमसी,  
10 अगस्त 2009

फ्ला लेफ्टि इंगोले गणेश दिगंबर (एमएस-16339एक्स), एएमसी,  
11 अगस्त 2009

फ्ला लेफ्टि संदिप कुमार खंडारे (एमएस-16344एच), एएमसी,  
11 अगस्त 2009

फ्ला लेफ्टि डुंगरा राम बेनिवाल (एमएस-16346एन), एएमसी,  
11 अगस्त 2009

फ्ला लेफ्टि एम डी मुज़ामील (एमएस-16352एफ), एएमसी,  
11 अगस्त 2009

फ्ला लेफ्टि पंकज बिरला (एमएस-16354एम), एएमसी, 11 अगस्त  
2009

फ्ला लेफ्टि अरिजित दत्ता (एमएस-16356एक्स), एएमसी, 12 अगस्त  
2009

फ्ला लेफ्टि गुरप्रीत कौर वालिया (एमएस-16359एल), एएमसी,  
19 अगस्त 2009

फला लेफ्ट शिव वर्मा सडाला (एमएस-16431डब्ल्यू) (एफ-30883जी), एएमसी, 01 जनवरी 2010

फला लेफ्ट देबज्योती त्रिपाठी (एमएस-16443एल) (एफ-30887ए), एएमसी, 05 जनवरी 2010

फला लेफ्ट कोडियातर हार्दिक बावनभाई (एमएस-16447एफ) (एफ-30888एफ), एएमसी, 05 जनवरी 2010

फला लेफ्ट गुनजन कुमार शर्मा (एमएस-16453पी) (एफ-30896 बी), एएमसी, 06 जनवरी 2010

फला लेफ्ट मेशकाला (एमएस-16471एक्स) (एफ-30893एल), एएमसी, 08 जनवरी 2010

फला लेफ्ट अरूण कुमार ए एस (एमएस-16474एल) (एफ-30891एफ), एएमसी, 09 जनवरी 2010

फला लेफ्ट पूजा शर्मा (एमएस-16493डब्ल्यू) (एफ-30894आर), एएमसी, 23 जनवरी 2010

फला लेफ्ट संजीव कलिता (एमएस-16569एल) (एफ-30900टी), एएमसी, 22 मार्च 2010

फला लेफ्ट जितु कलिता (एमएस-15941एल) (एफ-30048एफ), एएमसी, 18 नवम्बर 2008

फला लेफ्ट निशा सिंह (एमएस-16303वाई) (एफ-30699जी), एएमसी, 18 अगस्त 2009

फला लेफ्ट अभिजीत पी (एमएस-16309ए) (एफ-30370एन), एएमसी, 27 जुलाई 2009

फला लेफ्ट आदेश ए शेड्टी (एमएस-16318एफ) (एफ-30369ए), एएमसी, 28 जुलाई 2009

फला लेफ्ट अजय कुमार यादव (एमएस-16360ए) (एफ-30700एफ), एएमसी, 19 अगस्त 2009

फला लेफ्ट सरीन राज (एमएस-16385एम) (एफ-30712एस), एएमसी, 30 दिसम्बर 2009

फला लेफ्ट शिव कुमार (एमएस-16389एच) (एफ-30713ए), एएमसी, 30 दिसम्बर 2009

फला लेफ्ट झंजाडे तुषार सुधाकर (एमएस-16417के) (एफ-30882बी), एएमसी, 31 दिसम्बर 2009

#### फला लेफ्ट के पद पर

फला लेफ्ट नेहा गुप्ता (एमएस-16166एल), आयोग की तिथि 11 अगस्त 2009 को वेतन एवं पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 11 अगस्त 2006 से दी जाएगी।

(इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डाक्टर ऑफ मेडिसन (शरीरविकृतीशास्त्र) के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जायेगी)

#### कप्तान के पद पर (परख पर)

कप्तान श्रवण कुमार मिश्रा (एमएस-16217एन), आयोग की तिथि 11 अगस्त 2009 को वेतन एवं पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 11 फरवरी 2009 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जायेगी)

कप्तान सोनू सिंह (एमएस-15639एम), आयोग की तिथि 06 सितम्बर 2007 को वेतन एवं पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 06 सितम्बर 2004 से जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति/स्नातकोत्तर योग्यता एमडी (फिजिकल मेडिसन एण्ड रिहैबिलिटेशन) के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जायेगी)

#### कप्तान के पद पर

कप्तान अमित चोपड़ा (एमएस-15829वाई), आयोग की तिथि 22 मई 2008 को वेतन एवं पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 22 नवम्बर 2007 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जायेगी)

कप्तान जसप्रीत कौर (एमएस-15885एक्स), आयोग की तिथि 12 अगस्त 2008 को वेतन एवं पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 12 फरवरी 2008 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जायेगी)

कप्तान यू एस एस वराह मेहर (एमएस-15920पी), आयोग की तिथि 16 सितम्बर 2008 को वेतन एवं पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 16 सितम्बर 2005 से दी जाएगी।

(इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डाक्टर ऑफ मेडिसन के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जायेगी)

#### कप्तान के पद पर (परख पर)

कप्तान रुवेन्द्र कुमार बन्सोड (एमएस-16131पी), आयोग की तिथि 28 जुलाई 2009 को वेतन एवं पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 28 जुलाई 2006 से दी जाएगी।

(इसमें स्नातकोत्तर योग्यता मास्टर ऑफ सर्जरी के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जायेगी)

#### कप्तान के पद पर

कप्तान अधिकारीमयूम अरून कुमार शर्मा (एमएस-15789एच), आयोग की तिथि 25 अप्रैल 2008 को वेतन एवं पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 25 अक्टूबर 2007 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जायेगी)

कप्तान अनुज यादव (एमएस-16209पी), आयोग की तिथि 11 अगस्त 2009 को वेतन एवं पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 11 फरवरी 2009 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जायेगी)

कप्तान मलय कुमार (एमएस-16163एक्स), आयोग की तिथि 10 अगस्त 2009 को वेतन एवं पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 10 फरवरी 2009 से दी जाएगी।

(इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जायेगी)

कप्तान के पद पर (परख पर)

कप्तान जरिष जोसफ (एमएस-16368एम), एएमसी, 29 दिसम्बर 2009

कप्तान रोहन पी जे (एमएस-16369पी), एएमसी, 29 दिसम्बर 2009

कप्तान निमिता के मोहन (एमएस-16370के), एएमसी, 29 दिसम्बर 2009

कप्तान गोविन्द राजलू बी टी (एमएस-16371एम), एएमसी, 29 दिसम्बर 2009

कप्तान अवनीत रणछोवा (एमएस-16373एक्स), एएमसी, 29 दिसम्बर 2009

कप्तान आशिष एस मल्लिगे (एमएस-16374ए), एएमसी, 29 दिसम्बर 2009

कप्तान गुरविन्द्र सिंह (एमएस-16375एच), एएमसी, 29 दिसम्बर 2009

कप्तान सिमरनदीप कौर (एमएस-16376एल), एएमसी, 29 दिसम्बर 2009

कप्तान रजत चौहान (एमएस-16379वाई), एएमसी, 30 दिसम्बर 2009

कप्तान नवीन कुमार सिंह (एमएस-16382वाई), एएमसी, 30 दिसम्बर 2009

कप्तान नवदीप बन्त्याल (एमएस-16383एफ), एएमसी, 30 दिसम्बर 2009

कप्तान सौमेन मण्डल (एमएस-16386पी), एएमसी, 30 दिसम्बर 2009

कप्तान अनिल कुमार दलाल (एमएस-16387एक्स), एएमसी, 30 दिसम्बर 2009

कप्तान श्रीवत्स टी (एमएस-16390एक्स), एएमसी, 30 दिसम्बर 2009

कप्तान सौरभ महेश गुप्ता (एमएस-16391ए), एएमसी, 30 दिसम्बर 2009

कप्तान निहारिका मिश्रा (एमएस-16393एल), एएमसी, 30 दिसम्बर 2009

कप्तान सुनीता बिष्ट (एमएस-16394एन), एएमसी, 30 दिसम्बर 2009

कप्तान राहुल कुमार शरण (एमएस-16395डब्ल्यू), एएमसी, 30 दिसम्बर 2009

कप्तान रविन्द्र सिंह (एमएस-16396वाई), एएमसी, 30 दिसम्बर 2009

कप्तान सुन्दर लाल यादव (एमएस-16399एम), एएमसी, 30 दिसम्बर 2009

कप्तान अंशु माला भेंगरा (एमएस-16400डब्ल्यू), एएमसी, 30 दिसम्बर 2009

कप्तान रागिनी (एमएस-16401वाई), एएमसी, 30 दिसम्बर 2009

कप्तान अर्शिया (एमएस-16402एफ), एएमसी, 30 दिसम्बर 2009

कप्तान सुमित लवानिया (एमएस-16403के), एएमसी, 30 दिसम्बर 2009

कप्तान कुमारी सुमित्रा गजराज (एमएस-16405पी), एएमसी, 30 दिसम्बर 2009

कप्तान शेमुषी सिंह (एमएस-16406एक्स), एएमसी, 30 दिसम्बर 2009

कप्तान अंजना सिंघल (एमएस-16410ए), एएमसी, 30 दिसम्बर 2009

कप्तान भालेराव जितेन्द्र देवदास (एमएस-16412एफ), एएमसी, 30 दिसम्बर 2009

कप्तान मान सिंह (एमएस-16413एन), एएमसी, 30 दिसम्बर 2009

कप्तान जोगिन्द्र सिंह (एमएस-16414डब्ल्यू), एएमसी, 30 दिसम्बर 2009

कप्तान शेख रहिम बशीर (एमएस-16419पी), एएमसी, 31 दिसम्बर 2009

कप्तान सुदर्शन कुमार आर्य (एमएस-16420के), एएमसी, 31 दिसम्बर 2009

कप्तान सतविन्दर सिंह (एमएस-16421एम), एएमसी, 31 दिसम्बर 2009

कप्तान सत्य नारायण पाण्डा (एमएस-16424ए), एएमसी, 01 जनवरी 2010

कप्तान सुनील कुमार ठाकुर (एमएस-16426एल), एएमसी, 01 जनवरी 2010

कप्तान स्वप्न सुधा मन्ने (एमएस-16427एन), एएमसी, 01 जनवरी 2010

कप्तान अपर्णा सेतुरामन (एमएस-16429वाई), एएमसी, 01 जनवरी 2010

कप्तान ज्योति प्रसाद सैकिया (एमएस-16438ए), एएमसी, 03 जनवरी 2010

कप्तान रचना पोल (एमएस-16439एच), एएमसी, 04 जनवरी 2010

कप्तान अलकजेण्डर जोसफ (एमएस-16440एक्स), एएमसी, 04 जनवरी 2010

कप्तान पर्वते समीर माणिकराव (एमएस-16442एच), एएमसी, 05 जनवरी 2010

कप्तान प्रवीण बेनके (एमएस-16445डब्ल्यू), एएमसी, 05 जनवरी 2010

कप्तान एस धनशेखर (एमएस-16446वाई), एएमसी, 05 जनवरी 2010

- कप्तान ललरिणमोई (एमएस-16449एम), एएमसी, 05 जनवरी 2010
- कप्तान सुनिल प्रधान (एमएस-16450एफ), एएमसी, 05 जनवरी 2010
- कप्तान सुनिल मिश्रा (एमएस-16451के), एएमसी, 06 जनवरी 2010
- कप्तान अभिषेक बनोता (एमएस-16452एम), एएमसी, 06 जनवरी 2010
- कप्तान बिरादार आनंद रुद्रागौड (एमएस-16455ए), एएमसी, 06 जनवरी 2010
- कप्तान मुहम्मद अब्बास जाफरी (एमएस-16456एच), एएमसी, 07 जनवरी 2010
- कप्तान सन्नी मक्कार (एमएस-16460एल), एएमसी, 07 जनवरी 2010
- कप्तान गोतमारे लोकेश नारायण (एमएस-16462डब्ल्यू), एएमसी, 08 जनवरी 2010
- कप्तान अभय सिंह (एमएस-16472ए), एएमसी, 08 जनवरी 2010
- कप्तान सतीश कुमार (एमएस-16475एन), एएमसी, 09 जनवरी 2010
- कप्तान ज्योती मोतीराम गुलबे (एमएस-16477वाई), एएमसी, 09 जनवरी 2010
- कप्तान टिन्दू सेबि (एमएस-16481एफ), एएमसी, 09 जनवरी 2010
- कप्तान कुलदीप सिंह (एमएस-16486ए), एएमसी, 10 जनवरी 2010
- कप्तान विशाल डोगर (एमएस-16491एल), एएमसी, 21 जनवरी 2010
- कप्तान स्रवन्ति उपपलपाटि (एमएस-16494वाई), एएमसी, 23 जनवरी 2010
- कप्तान संदिप कुमार (एमएस-164495एफ), एएमसी, 26 जनवरी 2010
- कप्तान जोसफ जेबि मल (एमएस-16497एम), एएमसी, 29 जनवरी 2010
- कप्तान सी सिसिलिया सेवियर ज्योति (एमएस-16372पी), एएमसी, 29 दिसम्बर 2009
- कप्तान स्रीतम मोहांती (एमएस-16384के), एएमसी, 30 दिसम्बर 2009
- कप्तान चुन्नकीकर विजय भिमराव (एमएस-16499एक्स), एएमसी, 29 जनवरी 2010
- कप्तान सौम्या देवरायी (एमएस-16500एफ), एएमसी, 02 फरवरी 2010
- कप्तान उर्मीमाला भट्टाचार्या (एमएस-16501के), एएमसी, 02 फरवरी 2010
- कप्तान वकार हसरत मोईन (एमएस-16502एस), एएमसी, 04 फरवरी 2010
- कप्तान शबीन कुमार टी (एमएस-16503पी), एएमसी, 05 फरवरी 2010
- कप्तान संगीत एच (एमएस-16504एक्स), एएमसी, 05 फरवरी 2010
- कप्तान भास्कर ज्योती पेगु (एमएस-16505ए), एएमसी, 06 फरवरी 2010
- कप्तान रोहन वत्स (एमएस-16506एच), एएमसी, 09 फरवरी 2010
- कप्तान एम बालाजी प्रसाद एल्लप्पन (एमएस-16507एल), एएमसी, 09 फरवरी 2010
- कप्तान हरी प्रसात एस (एमएस-16509डब्ल्यू), एएमसी, 09 फरवरी 2010
- कप्तान पिंपरकर सुरेन्द्र विश्वासराव (एमएस-16510डब्ल्यू), एएमसी, 09 फरवरी 2010
- कप्तान रमनदीप सिंह (एमएस-16511एन), एएमसी, 09 फरवरी 2010
- कप्तान शीर्षेन्दु नन्दी (एमएस-16512डब्ल्यू), एएमसी, 11 फरवरी 2010
- कप्तान सुनील कुमार (एमएस-16514एफ), एएमसी, 12 फरवरी 2010
- कप्तान विनीता कुमारी (एमएस-16515के), एएमसी, 12 फरवरी 2010
- कप्तान सातपुते अमरसिंह रणजितराव (एमएस-16516एम), एएमसी, 12 फरवरी 2010
- कप्तान विशाल (एमएस-16517पी), एएमसी, 14 फरवरी 2010
- कप्तान सूरज कुमार एस (एमएस-16520पी), एएमसी, 15 फरवरी 2010
- कप्तान जितेन्द्र गुप्ता (एमएस-15740एम), एएमसी, 25 अप्रैल 2008
- कप्तान कुलदीप कुमार (एमएस-16521एक्स), एएमसी, 16 फरवरी 2010
- कप्तान तरूण सिंह (एमएस-16522ए), एएमसी, 16 फरवरी 2010
- कप्तान काजोल खोस्या (एमएस-16526डब्ल्यू), एएमसी, 18 फरवरी 2010
- कप्तान राहुल सन्धू (एमएस-16527वाई), एएमसी, 19 फरवरी 2010
- कप्तान हर्षद जे अपराजित (एमएस-16528एफ), एएमसी, 19 फरवरी 2010
- कप्तान वायकोले सुरज मुरलीधर (एमएस-16529के), एएमसी, 21 फरवरी 2010
- कप्तान कुलजीत सिंह (एमएस-16530वाई), एएमसी, 25 फरवरी 2010
- कप्तान विकास सिंह (एमएस-16532के), एएमसी, 26 फरवरी 2010
- कप्तान रेनू काण्डपाल (एमएस-16533एम), एएमसी, 26 फरवरी 2010

कप्तान खंडागले सचिन बापूसाहेब (एमएस-16534पी), एएमसी, 05 मार्च 2010

कप्तान यशवीर सिंह सहरावत (एमएस-16535एक्स), एएमसी, 09 मार्च 2010

कप्तान गीती शर्मा (एमएस-16567ए), एएमसी, 19 मार्च 2010

कप्तान सतीश कुमार आर (एमएस-16571एच), एएमसी, 30 मार्च 2010

कप्तान संकल्प कुमार त्रिपाठी (एमएस-16190एफ), एएमसी, 11 अगस्त 2009

कप्तान देबाशीष दास (एमएस-16230एक्स), एएमसी, 12 अगस्त 2009

कप्तान सरोज कुमार चौधरी (एमएस-16234एन), एएमसी, 12 अगस्त 2009

कप्तान रूपा एम सी (एमएस-16243पी), एएमसी, 15 अगस्त 2009

कप्तान माधुरिया बैज बरूआ (एमएस-16247एल), एएमसी, 18 अगस्त 2009

कप्तान जयंत चक्रवर्ती (एमएस-16255के), एएमसी, 19 अगस्त 2009

कप्तान जाधव शरद झुंबर (एमएस-16257पी), एएमसी, 20 अगस्त 2009

कप्तान रामविनय कुमार (एमएस-16263एच), एएमसी, 21 अगस्त 2009

कप्तान प्रकाश बिश्नोई (एमएस-16275एक्स), एएमसी, 02 सितम्बर 2009

कप्तान विरेन्द्र सिंह शेखावत (एमएस-16276ए), एएमसी, 02 सितम्बर 2009

कप्तान श्रवण टी एस (एमएस-16277एच), एएमसी, 03 सितम्बर 2009

कप्तान यादव भरत संतराम (एमएस-16278एल), एएमसी, 04 सितम्बर 2009

कप्तान गिड्डि शरत बाबु (एमएस-16280एच), एएमसी, 15 सितम्बर 2009

कप्तान श्रीकांत गिरेपूजे (एमएस-16285एफ), एएमसी, 28 जुलाई 2009

कप्तान गायकवाड सोमेश्वर नारायण (एमएस-16287एम), एएमसी, 28 जुलाई 2009

कप्तान कुलवेन्द्र सिंह यादव (एमएस-16294एच), एएमसी, 18 अगस्त 2009

कप्तान मुदित वार्णोय (एमएस-16296एन), एएमसी, 28 जुलाई 2009

कप्तान विजय बुधवार (एमएस-16299एफ), एएमसी, 28 जुलाई 2009

कप्तान अरशद अहमद राथर (एमएस-16304एफ), एएमसी, 21 अगस्त 2009

कप्तान रामबाबु मुप्पूरि (एमएस-16307पी), एएमसी, 26 फरवरी 2009

कप्तान जी प्रभु (एमएस-16135एल), एएमसी, 28 जुलाई 2009

कप्तान मणिकण्डन (एमएस-16139एफ), एएमसी, 28 जुलाई 2009

कप्तान मल्लिकार्जुन एस बिरादर (एमएस-16157के), एएमसी, 02 अगस्त 2009

कप्तान विनय कुमार साह (एमएस-16226पी), एएमसी, 12 अगस्त 2009

कप्तान मोहम्मद ज़ाहिद यरगाट्टी (एमएस-16311एक्स), एएमसी, 28 जुलाई 2009

कप्तान राकेश (एमएस-16312ए), एएमसी, 28 जुलाई 2009

कप्तान श्रीकान्त मत्स (एमएस-16313एच), एएमसी, 28 जुलाई 2009

कप्तान अर्णब साधुखाँ (एमएस-16314एल), एएमसी, 28 जुलाई 2009

कप्तान नरेन्द्र यादव (एमएस-16316डब्ल्यू), एएमसी, 28 जुलाई 2009

कप्तान एजाज अहमद (एमएस-16317वाई), एएमसी, 28 जुलाई 2009

कप्तान नीरज कुमार (एमएस-16319के), एएमसी, 28 जुलाई 2009

कप्तान मुरारी लाल घनेटवाल (एमएस-16321एफ), एएमसी, 28 जुलाई 2009

कप्तान दिनेश कुमार सैनी (एमएस-16322के), एएमसी, 28 जुलाई 2009

कप्तान यशिका सिन्हा (एमएस-16327एच), एएमसी, 11 अगस्त 2009

कप्तान के नीलवेल (एमएस-16328एल), एएमसी, 11 अगस्त 2009

कप्तान कपिल सिमल्टी (एमएस-16329एन), एएमसी, 11 अगस्त 2009

कप्तान कंसारा निकुंजकुमार चंदुलाल (एमएस-16330एच), एएमसी, 11 अगस्त 2009

कप्तान वाकिसन एस ए (एमएस-16331एल), एएमसी, 11 अगस्त 2009

कप्तान द्विपिन बी नायर (एमएस-16332एन), एएमसी, 11 अगस्त 2009

कप्तान कुमारस्वामि सालिमठ (एमएस-16418एम), एएमसी, 31 दिसम्बर 2009

कप्तान प्रशान्त शर्मा (एमएस-16333डब्ल्यू), एएमसी, 11 अगस्त 2009

कप्तान दीपक कुमार रंजन (एमएस-16335एफ), एएमसी, 11 अगस्त 2009

कप्तान सुनील सिंह शेखावत (एमएस-16336के), एएमसी, 11 अगस्त 2009

कप्तान राहुल अग्रवाल (एमएस-16338पी), एएमसी, 11 अगस्त 2009

कप्तान हिमांशु जोशी (एमएस-16341पी), एएमसी, 11 अगस्त 2009

कप्तान तानीया मनहास (एमएस-16342एक्स), एएमसी, 11 अगस्त 2009

कप्तान जी मिथुन चौधरी (एमएस-16347डब्ल्यू), एएमसी, 11 अगस्त 2009

कप्तान रणवीर सिंह (एमएस-16348वाई), एएमसी, 11 अगस्त 2009

कप्तान ब्रजेश कुमार (एमएस-16349एफ), एएमसी, 11 अगस्त 2009

कप्तान मकरन्द मिश्रा (एमएस-16350डब्ल्यू), एएमसी, 11 अगस्त 2009

कप्तान अनिल कुमार गुप्ता (एमएस-16351वाई), एएमसी, 11 अगस्त 2009

कप्तान अरविन्द कुमार जैन (एमएस-16353के), एएमसी, 11 अगस्त 2009

कप्तान हर्षा एम पी (एमएस-16355पी), एएमसी, 12 अगस्त 2009

कप्तान नवनीता मण्डल (एमएस-16357ए), एएमसी, 13 अगस्त 2009

कप्तान रमेश कुमार के (एमएस-16358एच), एएमसी, 13 अगस्त 2009

कप्तान अभिषेक कदियान (एमएस-16361एच), एएमसी, 02 सितम्बर 2009

कप्तान अंकित शर्मा (एमएस-16362एल), एएमसी, 02 सितम्बर 2009

कप्तान कार्तिक डी (एमएस-16363एन), एएमसी, 03 सितम्बर 2009

कप्तान कनधराज एम (एमएस-16364डब्ल्यू), एएमसी, 03 सितम्बर 2009

कप्तान अनुराग राठी (एमएस-16365वाई), एएमसी, 04 सितम्बर 2009

सर्जन लेफ्टि के पद पर (परख पर)

सर्जन लेफ्टि अनुपमा सुतार (एमएस-16067एच), एएमसी, 26 फरवरी 2009

सर्जन लेफ्टि शिवकुमार (एमएस-16089एफ), एएमसी, 28 जुलाई 2009

सर्जन लेफ्टि ललित कुमार शर्मा (एमएस-16095पी), एएमसी, 28 जुलाई 2009

सर्जन लेफ्टि मिलि दास चौधरी (एमएस-16140डब्ल्यू), एएमसी, 28 जुलाई 2009

सर्जन लेफ्टि प्रेमा एस गोडि (एमएस-16169वाई), एएमसी, 11 अगस्त 2009

राष्ट्रपति, यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन 7 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

लेफ्टि के पद पर (परख पर)

लेफ्टि सिद्धार्थ शिव जयसवाल (एमएस-16536ए), एएमसी, 15 मार्च 2010

लेफ्टि शशांक गुप्ता (एमएस-16537एच), एएमसी, 15 मार्च 2010

लेफ्टि प्रियंका वाधवा (एमएस-16538एल), एएमसी, 15 मार्च 2010

लेफ्टि असमिता सिन्हा (एमएस-16539एन), एएमसी, 15 मार्च 2010

लेफ्टि शिखा (एमएस-16540एच), एएमसी, 15 मार्च 2010

लेफ्टि आशिष अरविंद (एमएस-16542एन), एएमसी, 15 मार्च 2010

लेफ्टि शोभिल गुप्ता (एमएस-16543डब्ल्यू), एएमसी, 15 मार्च 2010

लेफ्टि संदीप दुबे (एमएस-16544वाई), एएमसी, 15 मार्च 2010

लेफ्टि विष्णु देव ए (एमएस-16545एफ), एएमसी, 15 मार्च 2010

लेफ्टि अभिशेक महतो (एमएस-16546के), एएमसी, 15 मार्च 2010

लेफ्टि मयंक दुदानी (एमएस-16548पी), एएमसी, 15 मार्च 2010

लेफ्टि रुद्रा शंकर डे (एमएस-16549एक्स), एएमसी, 15 मार्च 2010

लेफ्टि सुमित सिंह डिल्लन (एमएस-16550एम), एएमसी, 15 मार्च 2010

लेफ्टि शिखा त्यागी (एमएस-16551पी), एएमसी, 15 मार्च 2010

लेफ्टि दीपक कुमार झा (एमएस-16552एक्स), एएमसी, 15 मार्च 2010

लेफ्टि तनमय रस्तोगी (एमएस-16553ए), एएमसी, 15 मार्च 2010

लेफ्टि प्रतीक अवस्थी (एमएस-16554एच), एएमसी, 15 मार्च 2010

लेफ्टि विशाल झा (एमएस-16555एल), एएमसी, 15 मार्च 2010

लेफ्टि विशाल गुप्ता (एमएस-16556एन), एएमसी, 15 मार्च 2010  
 लेफ्टि स्वाती बिष्ट (एमएस-16557डब्ल्यू), एएमसी, 15 मार्च 2010  
 लेफ्टि अनूप कुमार आचार्य (एमएस-16558वाई), एएमसी, 15 मार्च 2010

लेफ्टि अर्पित मिश्रा (एमएस-16559एफ), एएमसी, 15 मार्च 2010  
 लेफ्टि विपिन कुमार पाठक (एमएस-16560डब्ल्यू), एएमसी, 15 मार्च 2010

लेफ्टि विनीत वी (एमएस-16561वाई), एएमसी, 15 मार्च 2010  
 लेफ्टि सिनोई टोम वर्गीज़ (एमएस-16562एफ), एएमसी, 15 मार्च 2010

लेफ्टि विशाल यादव (एमएस-16563के), एएमसी, 15 मार्च 2010  
 लेफ्टि विनय डोरा (एमएस-16564एम), एएमसी, 15 मार्च 2010  
 लेफ्टि मयंक धिमन (एमएस-16565पी), एएमसी, 15 मार्च 2010  
 लेफ्टि यश वर्धन दुबे (एमएस-16566एक्स), एएमसी, 15 मार्च 2010

राष्ट्रपति, सहर्ष सेना अनुदेश 40/73 के अधीन निम्नलिखित सेना चिकित्सा सेवा (गैर तकनीकी) अस्थायी कमीशन को 07 अप्रैल 2010 से नियुक्त करते हैं :--

नियमित सेना

अस्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

लेफ्टि के पद पर 07 अप्रैल 2010 से प्रभावी (परख पर)

पद, नाम, पुराना व्यक्तिगत संख्या, नया व्यक्तिगत संख्या, कमीशन की तिथि

नायक एस वी नरसिम्हा राव सी एच (सं. 13988095एफ अब एनटीएस-17579एफ), 07 अप्रैल 2010

नायक संजय राणा (सं. 13998055एन अब एनटीएस-17580डब्ल्यू), 07 अप्रैल 2010

नायक मोइरांगतम रंजन मीतेयी (सं. 15419517ए अब एनटीएस-17581वाई), 07 अप्रैल 2010

नायक संजय सिंह राघव (सं. 15418640एम अब एनटीएस-17582एफ), 07 अप्रैल 2010

नायक राम चंद्र भट्टराय (सं. 15413590एच अब एनटीएस-17583के), 07 अप्रैल 2010

सिपाही सत्यानारायण (सं. 13993162एल अब एनटीएस-17584एम), 07 अप्रैल 2010

सिपाही गिरीश जी (सं. 15411598डब्ल्यू अब एनटीएस-17585पी), 07 अप्रैल 2010

सिपाही सजीथ सी वी (सं. 15418177डब्ल्यू अब एनटीएस-17586एक्स), 07 अप्रैल 2010

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

सेना शाखा

सं. 168, दिनांक 9 मार्च 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी को परख अवधि पूरा होने पर पक्का करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

पद, नाम, व्यक्तिगत संख्या तथा कमीशन की तिथि

कप्तान राथौड मुकेश कुमार नवीन चन्द्रा (एनटीआर-16767डब्ल्यू), 20 मार्च 2007

कप्तान देश राज चन्देल (एनटीआर-16785एल), 15 फरवरी 2008

कप्तान महेश महतो (एनटीआर-16793एक्स), 15 फरवरी 2008

कप्तान चौगुले संतोष सखाराम (एनटीआर-16801एल), 15 फरवरी 2008

कप्तान राकेश कुमार शर्मा (एनटीआर-16797एन), 15 फरवरी 2008

कप्तान अनिरबन चौधरी (एनटीआर-16802एन), 15 फरवरी 2008

अस्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

पद, नाम, व्यक्तिगत संख्या तथा कमीशन की तिथि

लेफ्टि के वी एस अनिल कुमार (एनटीएस-17573ए), 07 अप्रैल 2009

लेफ्टि उधम सिंह (एनटीएस-17572एक्स), 07 अप्रैल 2009

लेफ्टि ब्रिजेश टी ए (एनटीएस-17574एच), 07 अप्रैल 2009

लेफ्टि देवैया एम एस (एनटीएस-17577डब्ल्यू), 07 अप्रैल 2009

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

सेना शाखा

सं. 169, दिनांक 9 मार्च 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी को पदोन्नति करते हैं :--

## नियमित सेना

## स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

## मेजर से लेफ्टि कर्नल के पद पर

पद, नाम, व्यक्तिगत संख्या तथा कमीशन की तिथि

मेजर ईश्वर दास (एनटीआर-16662एम), 28 जुलाई 2010

मेजर सहजवीर सिंह (एनटीआर-16660एफ), 28 जुलाई 2010

मेजर श्याम सिंह (एनटीआर-16661के), 28 जुलाई 2010

## अल्पकालिक सेवा कमीशन

## सेना चिकित्सा सेवा

## मेजर से लेफ्टि कर्नल के पद पर

मेजर उर्मिला प्रसाद (एमएस-14254एच), 21 जनवरी 2010

मेजर विभूति भटनागर (एमएस-14047डब्ल्यू), 10 अगस्त 2010

मेजर टी वी सुधा मोहन (एमएस-13787वाई), 31 अगस्त 2010

मेजर देबाज्योति भौमिक (एमएस-13684ए), 08 अप्रैल 2010

मेजर अनिशा सिंह (एमएस-13656एन), 10 सितम्बर 2010

मेजर यासमिन युसुफजाई (एमएस-13707डब्ल्यू), 12 अप्रैल 2010

मेजर दिनेश कुमार (एमएस-13912एक्स), 24 मई 2010

मेजर विश्वास कुमार राणा (एमएस-15583एल), 08 अगस्त 2010

मेजर राजन एक्का (एमएस-13821एन), 26 जुलाई 2010

मेजर विवेक सिंह (एमएस-14016डब्ल्यू), 28 अप्रैल 2010

मेजर साहमित सामंता (एमएस-14077एन), 10 जुलाई 2010

मेजर श्रीधर आर (एमएस-14021एफ), 19 जुलाई 2010

## फ्ला लेफ्टि से स्काइन लीडर के पद पर

फ्ला लेफ्टि विशाल जरेवाल (एमएस-15063ए)/(एफ-28376एस),  
19 अप्रैल 2009फ्ला लेफ्टि अर्णब गंगुली (एमएस-15169एम)/(एफ-28395एफ),  
16 जून 2009फ्ला लेफ्टि पिजस घोराय (एमएस-15178एन)/(एफ-28393एस),  
16 जून 2009फ्ला लेफ्टि राहुल (एमएस-14858एफ)/(एफ-27661जी),  
09 अगस्त 2009फ्ला लेफ्टि असीम शर्मा (एमएस-15094ए)/(एफ-28387जी),  
17 सितम्बर 2010

## सर्जन लेफ्टि से सर्जन लेफ्टि कमांडर के पद पर

सर्जन लेफ्टि अजय कुमार (एमएस-14872एन/75858बी),  
09 सितम्बर 2009 \*

\*(पदोन्नति के लिए एक माह की सर्विस फोरफीटिड की गई है।)

सर्जन लेफ्टि माईबम देबला चनु (एमएस-15159एच/75897टी),  
16 जून 2009सर्जन लेफ्टि संजय कुमार (एमएस-15106के/75909डब्ल्यू),  
23 दिसम्बर 2009सर्जन लेफ्टि अनूप कुमार नायर (एमएस-14919एन/75880बी), 27  
दिसम्बर 2009सर्जन लेफ्टि सुमित बनर्जी (एमएस-15089पी/75896आर),  
17 सितम्बर 2010

## कैप्टन से मेजर के पद पर

कैप्टन समीना (एमएस-14735पी), 30 दिसम्बर 2008

कैप्टन सुधीर कुमार (एमएस-15092पी), 17 सितम्बर 2010

कैप्टन कार्तिक कोहली (एमएस-15099वाई), 17 सितम्बर 2010

कैप्टन द्रोणा शर्मा (एमएस-15321पी), 22 सितम्बर 2010

कैप्टन श्वेता दत्ता (एमएस-15339एल), 22 सितम्बर 2010

कैप्टन लोकेश कुमार (एमएस-15372एच), 22 सितम्बर 2010.

कैप्टन नीरज कुमार तिवारी (एमएस-15378के), 22 सितम्बर 2010.

कैप्टन अभिषेक राठौर (एमएस-15422एच), 06 अक्टूबर 2010

कैप्टन पजई रविन्द्र केशवराव (एमएस-15423एल), 06 अक्टूबर 2010

कैप्टन पाटिल प्रगति पंढरीनाथ (एमएस-15217एफ), 20 जनवरी 2010

कैप्टन प्रीति मनहास (एमएस-15431के), 22 जुलाई 2010

कैप्टन भास्कर ज्योति दास (एमएस-15450पी), 22 जुलाई 2010

कैप्टन गुरसेल अम्मे रमाकान्त (एमएस-15313डब्ल्यू), 22 सितम्बर  
2010

कैप्टन राकेश कुमार मिश्रा (एमएस-15314वाई), 22 सितम्बर 2010

कैप्टन मार्थुज्या बर्मन (एमएस-15322एक्स), 22 सितम्बर 2010

कैप्टन दीपाश्री (एमएस-15326एन), 22 सितम्बर 2010

कैप्टन एस बालासुब्रामनियन (एमएस-15364के), 22 सितम्बर 2010

कैप्टन महेन्द्र सिंह (एमएस-15377एफ), 22 सितम्बर 2010

कैप्टन शरद कुमार गोयल (एमएस-15704एफ), 25 अप्रैल 2010

कैप्टन लाखन शीतल संतू (एमएस-15219एम), 20 जनवरी 2010

कैप्टन मोरे अमोल पांडुरंग (एमएस-15235के), 21 मार्च 2010



कैप्टन गगनप्रीत सिंह (एमएस-15434एक्स), 22 जुलाई 2010  
 कैप्टन तपस बिशवास (एमएस-15440एल), 22 जुलाई 2010  
 कैप्टन श्रीधरा टी आर (एमएस-15002एच), 12 अप्रैल 2009  
 कैप्टन रोशन कुमार बी (एमएस-15042के), 12 अप्रैल 2009  
 कैप्टन कपिल रामपाल (एमएस-15059एक्स), 19 अप्रैल 2009  
 कैप्टन तबू मलिंग (एमएस-14997एल), 12 मई 2009 \*  
 कैप्टन नचिकेत एम पलसकर (एमएस-15080ए), 17 मई 2009  
 \*(पदोन्नति के लिए एक माह की सर्विस फोरफीटिड की गई है)  
 कैप्टन एल अनुपमा (एमएस-15845डब्ल्यू), 24 जून 2009  
 कैप्टन प्रियदर्शनी चक्रवर्ती (एमएस-15828डब्ल्यू), 22 मई 2010

## स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा/गैर तकनीकी

कप्तान से मेजर के पद पर

पद, नाम, व्यक्तिगत सं. तथा पदोन्नति की तिथि

कैप्टन राजेश आर (एनटीआर-16783एन), 02 अप्रैल 2010

कैप्टन केदारे सूरज अरूण (एनटीएस-17501डब्ल्यू), 02 अप्रैल 2010

अल्पकालिक सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

लेफ्टि से कैप्टन के पद पर

लेफ्टि अनुराग हलदर (एमएस-15973एन), 11 फरवरी 2010

लेफ्टि हितेन्द्र सिंह राव (एमएस-15978एम), 11 फरवरी 2010

लेफ्टि चांद ओहरी (एमएस-15953ए), 11 फरवरी 2010

लेफ्टि अभिनव सिंह परिहार (एमएस-15972एल), 11 फरवरी 2010

लेफ्टि हितेश खन्ना (एमएस-15980के), 11 फरवरी 2010

लेफ्टि रमन बागला (एमएस-15989वाई), 06 अप्रैल 2010

लेफ्टि इशान सुनीयारा (एमएस-15986एन), 11 फरवरी 2010

लेफ्टि गौरव त्रिवेदी (एमएस-16087डब्ल्यू), 10 अगस्त 2010

लेफ्टि मनविन्द्र तेजपाल (एमएस-16088वाई), 10 अगस्त 2010

सर्जन लेफ्टि के पद पर

सर्जन सब लेफ्टि निहारिका गुप्ता (एमएस-15951पी) (76008डब्ल्यू),  
 11 फरवरी 2010

यश पांडे

बिग्रे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मास)

## थल सेना विभाग

सं 170, तारीख 10 मार्च 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ  
 करते हैं:--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकेनाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार वीरेंद्र प्रसाद (जेसी-421159एम), 21 अक्टूबर 2010 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
 01 जून 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार भक्ता लाल वी के (जेसी-420540एन), 01 अक्टूबर  
 2010

नायब सूबेदार अश्वनी कुमार (जेसी-420550एक्स), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार राम क्रिशन (जेसी-420676एक्स), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार प्रल्हाद सिंह (जेसी-420703डब्ल्यू), 09 अक्टूबर 2010 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार दिगंबर सिंह (जेसी-420737के), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार विक्रम सिंह नेगी (जेसी-420749वाई), 12 अक्टूबर  
 2010 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रुशि कुमार नागर (जेसी-420805एफ), 21 अक्टूबर  
 2010 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार जस पाल लाल (जेसी-420808ए), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार प्यार चंद (जेसी-420818के), 13 अक्टूबर 2010 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार क्रिशन कांत सिंह (जेसी-420820एफ), 01 अक्टूबर  
 2010

नायब सूबेदार माल सिंह राठोर (जेसी-421200एक्स), 01 अक्टूबर  
 2010

नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-420894डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार सुरींदर सिंह (जेसी-420379के), 03 नवम्बर 2010 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सूबेदार चोब सिंह (जेसी-420464एम), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार उषेंद्र नाथ सिंह (जेसी-420952पी), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार ओम प्रकाश, एस एम (जेसी-420919एक्स), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार होशीयार सिंह (जेसी-420955एच), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) अशोक कुमार त्रिपाठी (जेसी-420691एम), 01 दिसम्बर 2010

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-421013वाई), 22 नवम्बर 2010 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अरविंद कुमार (जेसी-421062एफ), 24 नवम्बर 2010 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार भगवान सिंह (जेसी-420772एम), 23 दिसम्बर 2010 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मोती सिंह (जेसी-420823पी), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार गणपत सिंह (जेसी-420829डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार दिवान सिंह (जेसी-420933के), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार जसवंत सिंह (जेसी-421029के), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार किशोरी प्रसाद (जेसी-421080के), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार जय सिंह (जेसी-421085एच), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार विनोद कुमार (जेसी-421086एल), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार सत पाल (जेसी-421138डब्ल्यू), 24 दिसम्बर 2010 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार दिवान चंद (जेसी-421168एन), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार मनजीत सिंह (जेसी-421169डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार अंगद सिंह (जेसी-420863डब्ल्यू), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार सुखपाल सिंह (जेसी-421116एक्स), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार श्यामराव तोरगल (जेसी-421170एल), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार सुरिन्दर सिंह (जेसी-421260एम), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार राजेन लामा (जेसी-420776एच), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कुलबिर सिंह (सं. 14918128ए अब जेसी-421740डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना काल्पनिक ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार मुकेश कुमार (सं. 14914825एच अब जेसी-421741वाई), 01 दिसम्बर 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार धूर्वा नाथ शुक्ला (सं. 14914887एच अब जेसी-421742एफ), 27 नवम्बर 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार विनोद कुमार (सं. 14923095के अब जेसी-421743के), 01 दिसम्बर 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार अर्जुन कोलंभकर (सं. 14917453एन अब जेसी-421744एम), 06 दिसम्बर 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार जितेंद्र सिंह (सं. 14919510एच अब जेसी-421745पी), 01 नवम्बर 2010

हवलदार गणेश कुमार मण्डल (सं. 14918770एफ अब जेसी-421746एक्स), 09 दिसम्बर 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार माया कुमार बी (सं. 14916021एम अब जेसी-421747ए), 04 दिसम्बर 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार पवन सिंह (सं. 14918997पी अब जेसी-421748एच), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार बिजेंद्र सिंह (सं. 14919047एम अब जेसी-421749एल), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार अर्जुन कुमार दिक्षित (सं. 14915593एफ अब जेसी-421750ए), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार दिग्विजय सिंह (सं. 14917330एफ अब जेसी-421751एच), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार बचू यादव (सं. 1498306एक्स अब जेसी-421752एल), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार मनतोश रॉय केयत (सं. 14916756डब्ल्यू अब जेसी-421753एन), 18 दिसम्बर 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार नरेश कुमार (सं. 14916862पी अब जेसी-421754डब्ल्यू), 08 दिसम्बर 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार उज्जवल कुमार मण्डल (सं. 14918887ए अब जेसी-421755वाई), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार महेंद्र कुमार (सं. 14919223वाई अब जेसी-421756एफ), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार कमल सिंह (सं. 14919517एम अब जेसी-421757के), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार बब्बन यादवा (सं. 14919313ए अब जेसी-421758एम), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार प्रल्हाद सिंह (सं. 14917144एल अब जेसी-421759पी), 08 दिसम्बर 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार दिलबीर सिंह (सं. 14917273एल अब जेसी-421760के), 08 दिसम्बर 2010 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार उमेश चन्द्र सिंह (सं. 14919320डब्ल्यू अब जेसी-421761एम), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार शिव करन सिंह (सं. 14919622एच अब जेसी-421762पी), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार मुन्नु (सं. 14916509एच अब जेसी-421763एक्स), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार संजय कुमार पांडे (सं. 14918800एन अब जेसी-421764ए), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार फुल चंद (सं. 14918805एम अब जेसी-421765एच), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार सुमंत कुमार के के (सं. 14918847वाई अब जेसी-421766एल), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार महेश कुमार (सं. 14918871पी अब जेसी-421767एन), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार ध्रुवा चरण दांस (सं. 14918885पी अब जेसी-421768डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार राज कपूर (सं. 14917033एन अब जेसी-421769वाई), 01 जनवरी 2010

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार (लिपिक) पिन्दू हुई (सं. 14916656एल अब जेसी-421770एन), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार (लिपिक) हरजिन्दर कुमार (सं. 14916778पी अब जेसी-421771डब्ल्यू), 01 जनवरी 2011

जे राय चौधरी  
अवर सचिव

थल सेना विभाग (एम जी ओ) ई एम ई कार्मिक

सं. 171, दिनांक 10 मार्च 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एमटी)

हरे कृष्णा राय (सं. 14584845ए अब जेसी-765193एल), 01 सितम्बर 2010

अश्वाना कुमार सामल (सं. 14585262के अब जेसी-765194एन), 01 सितम्बर 2010

रमेश चंद्र टेलर (सं. 14585340डब्ल्यू अब जेसी-765195डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2010

राजेन्द्र सिंह (सं. 14586098वाई अब जेसी-765196वाई), 01 सितम्बर 2010

राम नरेश (सं. 14586110पी अब जेसी-765274एल), 01 सितम्बर 2010

मोहन यादव (सं. 14585406एफ अब जेसी-765275एन), 01 सितम्बर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मशीनिस्ट के रैंक में

हर सिंह खदायत (सं. 14582885एच अब जेसी-765197एफ), 01 सितम्बर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक नेट वर्किंग के रैंक में

ओम प्रकाश तिवारी (सं. 14616981एम अब जेसी-765213एन), 01 सितम्बर 2010

मनोहर लाल (सं. 14616983एक्स अब जेसी-765214डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक ए व्हीकल के रैंक में

रविन्दर कुमार (सं. 14616467एच अब जेसी-765217के), 01 सितम्बर 2010

एन सी शेखर सदशिव राव (सं. 14616915के अब जेसी-765218एम), 01 सितम्बर 2010

शिंदे संजय राजाराम (सं. 14618052एम अब जेसी-765220के), 01 सितम्बर 2010

राम पाल सिंह जदून (सं. 14618153ए अब जेसी-765221एम), 01 सितम्बर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में

अशोक कुमार रोय (सं. 14619476पी अब जेसी-765222पी),  
04 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010\*

हवलदार से नायब मास्टर सूबेदार टेक आप्टो इलैक्ट के रैंक में

हवलदार दर्शन कुमार लोहानी (सं. 14614986एम अब जेसी-765223एक्स), 01 सितम्बर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में

हवलदार गुरुदीप सिंह (सं. 14623810एच अब जेसी-765224ए),  
01 सितम्बर 2010

हवलदार जोगिन्दर पाल शर्मा (सं. 14624280एल अब जेसी-765225एच), 01 सितम्बर 2010

हवलदार खदागो नावानाथ निबूत (सं. 14624547पी अब जेसी-765228डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2010

हवलदार सखारे किशन मानिक (सं. 14624577एम अब जेसी-765229वाई), 06 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010\*

हवलदार टी कामत्वी (सं. 14624607वाई अब जेसी-765230एन),  
01 सितम्बर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार ऑपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी)  
के रैंक में

हवलदार संजय कुमार तिवारी (सं. 14583173एम अब जेसी-765241ए), 01 सितम्बर 2010

हवलदार कन्हैया (सं. 14583332वाई अब जेसी-765242एच),  
01 सितम्बर 2010

हवलदार हरिहर सिंह (सं. 14583553एल अब जेसी-765253एल),  
01 सितम्बर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में

हवलदार शिबु एम एस (सं. 14589830एफ अब जेसी-765251के),  
01 सितम्बर 2010

हवलदार सत्य पाल सिंह (सं. 14589619एम अब जेसी-765252एम),  
01 सितम्बर 2010

हवलदार हीरा सिंह (सं. 14589864पी के अब जेसी-765254एक्स),  
01 सितम्बर 2010

हवलदार अनिल कुमार (सं. 14589652के अब जेसी-765255ए),  
01 सितम्बर 2010

हवलदार विजय कुमार मिश्रा (सं. 14589691एच अब जेसी-765258एन), 01 सितम्बर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार एसकेटी के रैंक में

हवलदार ज्ञान सिंह (सं. 14613071एन अब जेसी-765265के), 01 सितम्बर 2010

हवलदार विपिन कुमार (सं. 14589700वाई अब जेसी-765267पी),  
01 सितम्बर 2010

हवलदार बलविंदर सिंह (सं. 14613557वाई अब जेसी-765268एक्स), 01 सितम्बर 2010

हवलदार विनोद कुमार (सं. 14587607वाई अब जेसी-765269ए),  
01 सितम्बर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार सुपोर्ट स्टाफ के रैंक में

हवलदार राम अवतार (सं. 14630778एफ अब जेसी-765278एफ),  
01 सितम्बर 2010

हवलदार संजय कुमार सिंह (सं. 577056एल अब जेसी-765279के),  
01 सितम्बर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार टेक आप्टो इलैक्ट के रैंक में

हवलदार रामचन्द्र पाल (सं. 14578973एफ अब जेसी-765281ए),  
20 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010\*

हवलदार पाटिल कृष्णा तुकाराम (सं. 14580800एच अब जेसी-765283एम), 01 सितम्बर 2010

हवलदार से नायब सूबेदार टेक एस ए के रैंक में

हवलदार वंजारि राजकुमार मोतीराम (सं. 14595298डब्ल्यू अब जेसी-765284पी), 01 सितम्बर 2010

\*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है

एन के कश्मीरा  
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 172, दिनांक 10 मार्च 2011--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

कवचित कोर

स्थाई रिसालदार मेजर के रैंक में

रिसालदार त्रिवेणी प्रसाद पटेल (जेसी-238063डब्ल्यू),  
01 अप्रैल 2010

रिसालदार गिरराज प्रसाद (जेसी-240601एक्स), 01 मई 2010

रिसालदार अजीत सिंह (जेसी-240935एम), 01 जुलाई 2010

रिसालदार तिरथ सिंह (जेसी-241424पी), 01 जुलाई 2010

रिसालदार कुशहाल पाल सिंह (जेसी-239870एक्स), 01 जुलाई 2010

रिसालदार कालू राम (जेसी-240273पी), 01 जून 2010

रिसालदार मगर सिंह (जेसी-239475के), 08 जुलाई 2010\*

\*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

रिसालदार भंवर सिंह (जेसी-240621एल), 03 जुलाई 2010\*

\*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

रिसालदार राजपाल सिंह (जेसी-240604एल), 01 सितम्बर 2010

रिसालदार हनुमन्त प्रसाद (जेसी-241275एम), 17 अगस्त 2010

\*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

रिसालदार चकपानी गौतम भांजी (जेसी-241669एल), 01 अक्टूबर 2010

रिसालदार मुख्त्यार सिंह (जेसी-241668एच), 10 अगस्त 2010\*

\*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जाती है)

रिसालदार श्री पाल सिंह (जेसी-240250एन), 01 अक्टूबर 2010

रिसालदार रामदीन (जेसी-240002एक्स), 01 नवम्बर 2010

रिसालदार भंवर लाल टुडी (जेसी-239755एक्स), 01 अक्टूबर 2010

रिसालदार/क्लर्क राजेश कुमार पाण्डे (जेसी-239509एम), 04 अक्टूबर 2010\*

\*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

रिसालदार/एसकेटी अजय कुमार वी (जेसी-238098एम), 16 अप्रैल 2010\*

\*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

नायब रिसालदार के रैंक

भूतपूर्व दफादार राम सिंह (सं. 10403004एम अब जेसी-244981वाई), 18 जनवरी 1989

जे रॉय चौधरी  
अवर सचिव

सेना शाखा

शुद्धि-पत्र

सं. 173, दिनांक 11 मार्च 2011--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

अल्पकालिक सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

कैप्टन से मेजर के पद पर

(एमएस-13684ए) मेजर दिबाज्योति भौमिक की पदोन्नति की तिथि जोकि दिनांक 18 सितम्बर 2003 के राजपत्र में प्रकाशित क्र. संख्या 08 पर है इसमें निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के लिए--08 अक्टूबर 2003

पढ़ें--08 अप्रैल 2003.

(एमएस-14254एच) मेजर (श्रीमती) उर्मिला प्रसाद की पदोन्नति की तिथि जोकि दिनांक 30 अप्रैल 2005 के राजपत्र में प्रकाशित क्र. संख्या 03 पर है इसमें निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के लिए--24 सितम्बर 2003

पढ़ें--21 जनवरी 2003

अधिकारी को आनुमानिक वरिष्ठता दिनांक 21 जनवरी 1999 से बिना वेतन और भत्तों के प्रदान की जाती है जोकि पदोन्नति के लिए गिनी जायेगी और उपदान के लिए नहीं गिनी जायेगी।

यश पाण्डे

बिरो

उप महानिदेशक स.से.चि.से.(मा.सं.)

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 30th April 2011

## ARMY BRANCH

No. 167, dated 9th March 2011—The President is pleased to make the following appointments for a period of 5 years under AI 75/78 as amended :—

REGULAR ARMY  
SHORT SERVICE COMMISSION

(To be Flt Lt on probation)

Flt Lt Ashwani Chauhan (MS-16315N), AMC, 28 Jul 2009

Flt Lt Nitesh Bhargava (MS-16320Y), AMC, 28 Jul 2009

Flt Lt Murari M (MS-16324P), AMC, 10 Aug 2009

Flt Lt Amit Kaushal (MS-16325X), AMC, 10 Aug 2009

Flt Lt Andhare Ravindra Shrimant (MS-16326A), AMC, 10 Aug 2009

Flt Lt Ingole Ganesh Digambar (MS-16339X), AMC, 11 Aug 2009

Flt Lt Sandeep Kumar Khandare (MS-16344H), AMC, 11 Aug 2009

Flt Lt Dungra Ram Beniwal (MS-16346N), AMC, 11 Aug 2009

Flt Lt MD Muzammil (MS-16352F), AMC, 11 Aug 2009

Flt Lt Pankaj Birla (MS-16354M), AMC, 11 Aug 2009

Flt Lt Arijit Datta (MS-16356X), AMC, 12 Aug 2009

Flt Lt Gurpreet Kaur Walia (MS-16359L), AMC, 19 Aug 2009

Flt Lt Shiva Verma Sadala (MS-16431W) (AF-30883G), AMC, 01 Jan 2010

Flt Lt Debajyoti Tripathy (MS-16443L) (AF-30887A), AMC, 05 Jan 2010

Flt Lt Kodyatar Hardik Bavanbhai (MS-16447F) (AF-30888F), AMC, 05 Jan 2010

Flt Lt Gunjan Kumar Sharma (MS-16453P) (AF-30896B), AMC, 06 Jan 2010

Flt Lt Merakala (MS-16471X) (AF-30893L), AMC, 08 Jan 2010

Flt Lt Arun Kumar AS (MS-16474L) (AF-30891F), AMC, 09 Jan 2010

Flt Lt Pooja Sharma (MS-16493W) (AF-30894R), AMC, 23 Jan 2010

Flt Lt Sanjib Kalita (MS-16569L) (AF-30900T), AMC, 22 Mar 2010

Flt Lt Jitu Kalita (MS-15941L) (AF-30048F), AMC, 18 Nov 2008

Flt Lt Nisha Singh (MS-16303Y) (AF-30699T), AMC, 18 Aug 2009

Flt Lt Abhijith P (MS-16309A) (AF-30370N), AMC, 27 Jul 2009

Flt Lt Adesh A Shetty (MS-16318F) (AF-30369A), AMC, 28 Jul 2009

Flt Lt Ajay Kumar Yadav (MS-16360A) (AF-30700F), AMC, 19 Aug 2009

Flt Lt Sarin Raj (MS-16385M) (AF-30712S), AMC, 30 Dec 2009

Flt Lt Shiv Kumar (MS-16389H) (AF-30713A), AMC, 30 Dec 2009

Flt Lt Zanjade Tushar Sudhakar (MS-16417K) (AF-30882B), AMC, 31 Dec 2009

To be Flt Lt

Flt Lt Neha Gupta MS-16166-L DOC-11 Aug 2009

With seniority for pay and promotion from 11 Aug 2006. This includes 36 months antedate for Doctor of Medicine (Pathology) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

To be Capt

Capt Shravan Kumar Mishra MS-16217-N DOC-11 Aug 2009

With seniority for pay and promotion from 11 Feb 2009. This includes 6 months antedate for Hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

Capt Sonu Singh MS-15639-M DOC-6 Sept 2007

With seniority for pay and promotion from 6 Sept 2007. This includes 36 months antedate for M.D. (Physical Medicine & Rehabilitation) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

Capt Amit Chopra MS-15829-Y DOC 22 May 2008

With seniority for pay and promotion from 22 Nov 2007. This includes 06 months antedate for Hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

Capt Jaspreet Kaur MS-15885-X DOC 12 Aug 2008

With seniority for pay and promotion from 12 Feb 2008. This includes 06 months antedate for Hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

Capt USS Varaha Mehar MS-15920-P DOC 16 Sept 2008

With seniority for pay and promotion from 16 Sept 2005. This includes 36 months antedate for Doctor of Medicine (Anaesthesiology) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

Capt Roowendra Kumar Bansod MS-16131-P DOC 28 Jul 2009

With seniority for pay and promotion from 28 Jul 2006. This includes 36 months antedate for Master of Surgery (General Surgery) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled)

Capt Adhikarimayum Arunkumar Sharma (MS-15789H), DOC, 25 Apr 2008

With seniority for pay and promotion from 25 Oct 2007. This includes 06 months antedate for Hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Anuj Yadav (MS-16209P), DOC, 11 Aug 2009

With seniority for pay and promotion from 11 Feb 2009. This includes 06 months antedate for Hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Malay Kumar (MS-16163X), DOC, 10 Aug 2009

With seniority for pay and promotion from 10 Feb 2009. This includes 06 months antedate for Hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

To be Capt on probation

Capt Jerish Joseph (MS-16368M), AMC, 29 Dec 2009

Capt Rohan PJ (MS-16369P), AMC, 29 Dec 2009

Capt Nimitha K Mohan (MS-16370K), AMC, 29 Dec 2009

Capt Govinda Rajalu BT (MS-16371M), AMC, 29 Dec 2009

Capt Avneet Randhawa (MS-16373X), AMC, 29 Dec 2009

Capt Ashish S Mallige (MS-16374A), AMC, 29 Dec 2009

Capt Gurwinder Singh (MS-16375H), AMC, 29 Dec 2009

Capt Simrandeep Kaur (MS-16376L), AMC, 29 Dec 2009

Capt Rajat Chauhan (MS-16379Y), AMC, 30 Dec 2009

Capt Navin Kumar Singh (MS-16382Y), AMC, 30 Dec 2009

Capt Navdeep Banyal (MS-16383F), AMC, 30 Dec 2009

Capt Soumen Mandal (MS-16386P), AMC, 30 Dec 2009

Capt Anil Kumar Dalal (MS-16387X), AMC, 30 Dec 2009

Capt Sreevastsa T (MS-16390X), AMC, 30 Dec 2009

Capt Saurabh Mahesh Gupta (MS-16391A), AMC, 30 Dec 2009

Capt Niharika Mishra (MS-16393L), AMC, 30 Dec 2009

Capt Sunita Bisht (MS-16394N), AMC, 30 Dec 2009

Capt Rahul Kumar Sharan (MS-16395W), AMC, 30 Dec 2009

Capt Ravinder Singh (MS-16396Y), AMC, 30 Dec 2009

Capt Sunder Lal Yadav (MS-16399M), AMC, 30 Dec 2009

Capt Anshu Mala Bhengra (MS-16400W), AMC, 30 Dec 2009

Capt Ragini (MS-16401Y), AMC, 30 Dec 2009

Capt Arshiya (MS-16402F), AMC, 30 Dec 2009

Capt Sumit Lavania (MS-16403K), AMC, 30 Dec 2009

Capt Kum Sumitra Gajraj (MS-16405P), AMC, 30 Dec 2009

Capt Shemushi Singh (MS-16406X), AMC, 30 Dec 2009

Capt Anjana Singhal (MS-16410A), AMC, 30 Dec 2009

Capt Bhalerao Jitendra Deodas (MS-16412L), AMC, 30 Dec 2009

Capt Man Singh (MS-16413N), AMC, 30 Dec 2009

Capt Joginder Singh (MS-16414W), AMC, 30 Dec 2009

Capt Shaikh Rahim Bashir (MS-16419P), AMC, 31 Dec 2009

Capt Sudarshan Kumar Arya (MS-16420K), AMC, 31 Dec 2009

Capt Satwinder Singh (MS-16421M), AMC, 31 Dec 2009

Capt Satya Narayan Panda (MS-16424A), AMC, 01 Jan 2010

Capt Sunil Kumar Thakur (MS-16426L), AMC, 01 Jan 2010

Capt Swapna Sudha Manne (MS-16427N), AMC, 01 Jan 2010

Capt Aparna Sethuraman (MS-16429Y), AMC, 01 Jan 2010

Capt Jyoti Prasad Saikia (MS-16438A), AMC, 03 Jan 2010

Capt Rachna Paul (MS-16439H), AMC, 04 Jan 2010

Capt Alexander Joseph (MS-16440X), AMC, 04 Jan 2010

Capt Parwate Sameer Manikrao (MS-16442H), AMC, 05 Jan 2010

Capt Praveen Benake (MS-16445W), AMC, 05 Jan 2010

Capt S Dhanasekar (MS-16446Y), AMC, 05 Jan 2010

Capt Lal Rinmawii (MS-16449M), AMC, 05 Jan 2010

Capt Sunil Pradhan (MS-16450F), AMC, 05 Jan 2010

Capt Sunil Mishra (MS-16451K), AMC, 06 Jan 2010

Capt Abishek Banota (MS-16452M), AMC, 06 Jan 2010

Capt Biradar Anand Rudragoud (MS-16455A), AMC, 06 Jan 2010

Capt Mohd Abbas Jafri (MS-16456H), AMC, 07 Jan 2010

Capt Sunny Makkar (MS-16460L), AMC, 07 Jan 2010

Capt Gotmare Lokesh Narayan (MS-16462W), AMC, 08 Jan 2010

Capt Abhay Singh (MS-16472A), AMC, 08 Jan 2010

Capt Satish Kumar (MS-16475N), AMC, 09 Jan 2010

Capt Jyoti Motiram Gulve (MS-16477Y), AMC, 09 Jan 2010

Capt Tintu Seby (MS-16481F), AMC, 09 Jan 2010

Capt Kuldeep Singh (MS-16486A), AMC, 10 Jan 2010

Capt Vishal Dogar (MS-16491L), AMC, 21 Jan 2010

Capt Sravanthi Uppalapati (MS-16494Y), AMC, 23 Jan 2010

Capt Sandip Kumar (MS-16495F), AMC, 26 Jan 2010

Capt Joshph JB Mal (MS-16497M), AMC, 29 Jan 2010

Capt C Cecilia Xavier Jyothi (MS-16372P), AMC, 29 Dec 2009

Capt Sritam Mohanty (MS-16384K), AMC, 30 Dec 2009

Capt Chunkikar Vijay Bhimrao (MS-16499X), AMC, 29 Jan 2010

Capt Saumya Deorari (MS-16500F), AMC, 02 Feb 2010

Capt Urmimala Bhattacharya (MS-16501K), AMC, 02 Feb 2010

Capt Waquar Hasrat Moin (MS-16502M), AMC, 04 Feb 2010

Capt Shabeen Kumar T (MS-16503P), AMC, 05 Feb 2010

Capt Sangeeth H (MS-16504X), AMC, 05 Feb 2010

Capt Bhaskar Jyoti Pegu (MS-16505A), AMC, 06 Feb 2010

Capt Rohan Vatsya (MS-16506H), AMC, 09 Feb 2010

Capt M Balaji Prasad Ellappan (MS-16507L), AMC, 09 Feb 2010

Capt Hari Prasath S (MS-16509W), AMC, 09 Feb 2010

Capt Pimparkar Surendra Vishwasrao (MS-16510L), AMC, 09 Feb 2010

Capt Ramandeep Singh (MS-16511N), AMC, 09 Feb 2010

Capt Shirsendu Nandi (MS-16512W), AMC, 11 Feb 2010

Capt Sunil Kumar (MS-16514F), AMC, 12 Feb 2010

Capt Vinita Kumari (MS-16515K), AMC, 12 Feb 2010

Capt Satpute Amarsingh Ranjeetrao (MS-16516M), AMC, 12 Feb 2010

Capt Vishai (MS-16517P), AMC, 14 Feb 2010

Capt Suraj Kumar S (MS-16520P), AMC, 15 Feb 2010

Capt Jitendra Gupta (MS-15740M), AMC, 25 Apr 2008

Capt Kuldeep Kumar (MS-16521X), AMC, 16 Feb 2010

Capt Tarun Singh (MS-16522A), AMC, 16 Feb 2010

Capt Kajol Khosya (MS-16526W), AMC, 18 Feb 2010

Capt Rahul Sandhu (MS-16527Y), AMC, 19 Feb 2010

Capt Harshad J Aparajit (MS-16528F), AMC, 19 Feb 2010

Capt Waykole Suraj Murlidhar (MS-16529K), AMC, 21 Feb 2010

Capt Kuljeet Singh (MS-16530Y), AMC, 25 Feb 2010

Capt Vikash Singh (MS-16532K), AMC, 26 Feb 2010

Capt Renu Kandpal (MS-16533M), AMC, 26 Feb 2010

Capt Khandagale Sachin Bapusaheb (MS-16534P), AMC, 05 Mar 2010

Capt Yashveer Singh Sehrawat (MS-16535X), AMC, 09 Mar 2010

Capt Geeti Sharma (MS-16567A), AMC, 19 Mar 2010

Capt Sathish Kumar R (MS-16571H), AMC, 30 Mar 2010

Capt Sankalp Kumar Tripathi (MS-16190F), AMC, 11 Aug 2009

Capt Debasish Das (MS-16230X), AMC, 12 Aug 2009

Capt Saroj Kumar Chaudhary (MS-16234N), AMC, 12 Aug 2009

Capt Roopa MC (MS-16243P), AMC, 15 Aug 2009

Capt Madhurya Bezbaruah (MS-16247L), AMC, 18 Aug 2009



Capt Jayanta Chakravarty (MS-16255K), AMC, 19 Aug 2009

Capt Jadhav Sharad Zumbar (MS-16257P), AMC, 20 Aug 2009

Capt Ramvinay Kumar (MS-16263H), AMC, 21 Aug 2009

Capt Prakash Bishnoi (MS-16275X), AMC, 02 Sep 2009

Capt Virendra Singh Shekhawat (MS-16276A), AMC, 02 Sep 2009

Capt Shravan TS (MS-16277H), AMC, 03 Sep 2009

Capt Yadav Bharat Santram (MS-16278L), AMC, 04 Sep 2009

Capt Giddi Sarath Babu (MS-16280H), AMC, 15 Sep 2009

Capt Shrikant Girepunje (MS-16285F), AMC, 28 Jul 2009

Capt Gaikwad Someshwar Narayan (MS-16287M), AMC, 28 Jul 2009

Capt Kulvendra Singh Yadav (MS-16294H), AMC, 18 Aug 2009

Capt Mudit Varshney (MS-16296N), AMC, 28 Jul 2009

Capt Vijay Budhwar (MS-16299F), AMC, 28 Jul 2009

Capt Arshid Ahmad Rather (MS-16304F), AMC, 21 Aug 2009

Capt Rambabu Muppuri (MS-16307P), AMC, 26 Feb 2009

Capt G Prabhu (MS-16135L), AMC, 28 Jul 2009

Capt Manikandan A (MS-16139F), AMC, 28 Jul 2009

Capt Mallikarjun S Biradar (MS-16157K), AMC, 02 Aug 2009

Capt Vinay Kumar Sah (MS-16226P), AMC, 12 Aug 2009

Capt Mohammed Zahid Yergatti (MS-16311X), AMC, 28 Jul 2009

Capt Rakesh (MS-16312A), AMC, 28 Jul 2009

Capt Sree Kanth Matcha (MS-16313H), AMC, 28 Jul 2009

Capt Arnab Sadhukhan (MS-16314L), AMC, 28 Jul 2009

Capt Narender Yadav (MS-16316W), AMC, 28 Jul 2009

Capt Ajaz Ahmad (MS-16317Y), AMC, 28 Jul 2009

Capt Neeraj Kumar (MS-16319K), AMC, 28 Jul 2009

Capt Murari Lal Dhanetwal (MS-16321F), AMC, 28 Jul 2009

Capt Dinesh Kumar Saini (MS-16322K), AMC, 28 Jul 2009

Capt Yashika Sinha (MS-16327H), AMC, 11 Aug 2009

Capt K Neilvel (MS-16328L), AMC, 11 Aug 2009

Capt Kapil Semalti (MS-16329N), AMC, 11 Aug 2009

Capt Kansara Nikunj Kumar Chandulal (MS-16330H), AMC, 11 Aug 2009

Capt Vakisan SA (MS-16331L), AMC, 11 Aug 2009

Capt Dwipin V Nair (MS-16332N), AMC, 11 Aug 2009

Capt Kumarswamy Salimath (MS-16418M), AMC, 31 Dec 2009

Capt Prashant Sharma (MS-16333W), AMC, 11 Aug 2009

Capt Deepak Kumar Ranjan (MS-16335F), AMC, 11 Aug 2009

Capt Sunil Singh Shekhawat (MS-16336K), AMC, 11 Aug 2009

Capt Rahul Agarwal (MS-16338P), AMC, 11 Aug 2009

Capt Himanshu Joshi (MS-16341P), AMC, 11 Aug 2009

Capt Tania Manhas (MS-16342X), AMC, 11 Aug 2009

Capt G Midhun Chowdary (MS-16347W), AMC, 11 Aug 2009

Capt Ranvir Singh (MS-16348Y), AMC, 11 Aug 2009

Capt Brajesh Kumar (MS-16349F), AMC, 11 Aug 2009

Capt Makrand Mishra (MS-16350W), AMC, 11 Aug 2009

Capt Anil Kumar Gupta (MS-16351Y), AMC, 11 Aug 2009

Capt Arvind Kumar Jain (MS-16353K), AMC, 11 Aug 2009

Capt Harsha MP (MS-16355P), AMC, 12 Aug 2009

Capt Nabanita Mondal (MS-16357A), AMC, 13 Aug 2009

Capt Ramesh Kumar K (MS-16358H), AMC, 13 Aug 2009

Capt Abhishek Kadian (MS-16361H), AMC, 02 Sep 2009

Capt Ankit Sharma (MS-16362L), AMC, 02 Sep 2009

Capt Karthik D (MS-16363N), AMC, 03 Sep 2009

Capt Kanagaraj M (MS-16364W), AMC, 03 Sep 2009

Capt Anurag Rathi (MS-16365Y), AMC, 04 Sep 2009

To be Surg Lt on probation

Surg Lt Anupama Sutar (MS-16067H), AMC, 26 Feb 2009

Surg Lt Shiva Kumar (MS-16089F), AMC, 28 Jul 2009

Surg Lt Lalit Kumar Sharma (MS-16095P), AMC, 28 Jul 2009

Surg Lt Mili Das Chowdhury (MS-16140W), AMC, 28 Jul 2009

Surg Lt Prema S Godi (MS-16169Y), AMC, 11 Aug 2009

The President is pleased to make the following appointment for a period of 7 years under AI 75/78 as amended:—

#### REGULAR ARMY

##### SHORT SERVICE COMMISSION

To be Lt on probation

Lt Siddharth Shiv Jaiswal (MS-16536A), AMC, 15 Mar 2010

Lt Shashank Gupta (MS-16537H), AMC, 15 Mar 2010

Lt Priyanka Wadhwa (MS-16538L), AMC, 15 Mar 2010

Lt Asmita Sinha (MS-16539N), AMC, 15 Mar 2010

Lt Shikha (MS-16540H), AMC, 15 Mar 2010

Lt Ashish Aravind (MS-16542N), AMC, 15 Mar 2010

Lt Shobhit Gupta (MS-16543W), AMC, 15 Mar 2010

Lt Sandeep Dubey (MS-16544Y), AMC, 15 Mar 2010

Lt Vishnu Dev A (MS-16545F), AMC, 15 Mar 2010

Lt Abhishek Mahato (MS-16546K), AMC, 15 Mar 2010

Lt Mayank Dudani (MS-16548P), AMC, 15 Mar 2010

Lt Rudra Shankar Dey (MS-16549X), AMC, 15 Mar 2010

Lt Sumeet Singh Dhillon (MS-16550M), AMC, 15 Mar 2010

Lt Shikha Tyagi (MS-16551P), AMC, 15 Mar 2010

Lt Deepak Kumar Jha (MS-16552X), AMC, 15 Mar 2010

Lt Tanmaya Rastogi (MS-16553A), AMC, 15 Mar 2010

Lt Prateek Awasthi (MS-16554H), AMC, 15 Mar 2010

Lt Vishal Jha (MS-16555L), AMC, 15 Mar 2010

Lt Vishal Gupta (MS-16556N), AMC, 15 Mar 2010

Lt Swati Bisht (MS-16557W), AMC, 15 Mar 2010

Lt Anup Kumar Acharya (MS-16558Y), AMC, 15 Mar 2010

Lt Arpit Mishra (MS-16559F), AMC, 15 Mar 2010

Lt Vipin Kumar Pathak (MS-16560W), AMC, 15 Mar 2010

Lt Vineeth V (MS-16561Y), AMC, 15 Mar 2010

Lt Cinoi Tom Varghese (MS-16562F), AMC, 15 Mar 2010

Lt Vishal Yadav (MS-16563K), AMC, 15 Mar 2010

Lt A Vinay Dora (MS-16564M), AMC, 15 Mar 2010

Lt Mayank Dhiman (MS-16565P), AMC, 15 Mar 2010

Lt Yash Vardhan Dubey (MS-16566X), AMC, 15 Mar 2010

The President is pleased to make the following appointment under AI 40/73 with effect from 07 Apr 2010, in AMC/SSC (Non Tech) :—

#### REGULAR ARMY

##### SHORT SERVICE COMMISSION

##### ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

As Lt wef 07 Apr 2010 (On Probation)

Rank, Name, Old Army number and allotted New Personal number & Date of Commission

Nk SV Narasimha Rao Ch (No.13988095F now NTS-17579F), 07 Apr 2010

Nk Sanjay Rana (No.13988055N now NTS-17580W), 07 Apr 2010

Nk Moirangthem Ranjan Meitei (No. 15419517A now NTS-17581Y), 07 Apr 2010

Nk Sanjay Singh Raghav (No. 15418640M now NTS-17582F), 07 Apr 2010

Nk Ram Chandra Bhattarai (No. 15413590H now NTS-17583K), 07 Apr 2010

Sep Satyanarain (No. 13993162L now NTS-17584M) 07 Apr 2010

Sep Girish G (No. 15411598W now NTS-17585P) 07 Apr 2010

Sep Sajith CV (No. 15418177W now NTS-17586X), 07 Apr 2010

YASH PANDE

Brig

Dy DG AFMS (HR)

#### ARMY BRANCH

No. 168, dated 09th March 2011—The President is pleased to confirm the undermentioned AMC/PC (Non Tech) Officer consequent on completion of the probationary period :—

#### REGULAR ARMY

##### PERMANENT COMMISSION

##### ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Rank, Name, Pers No. & Date of Commission

Capt Rathod Mukesh Kumar Navin Chandra (NTR-16767W), 20 Mar 2007

Capt Desh Raj Chandel (NTR-16785Y), 15 Feb 2008

Capt Mahesh Mahto (NTR-16793X), 15 Feb 2008

Capt Chougule Santosh Sakharam (NTR-16801L), 15 Feb 2008

Capt Rakesh Kumar Sharma (NTR-16797N), 15 Feb 2008

Capt Anirban Choudhury (NTR-16802N), 15 Feb 2008

#### SHORT SERVICE COMMISSION

##### ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Rank, Name, Pers No. & Date of Commission

Lt KVS Anil Kumar (NTS-17573A), 07 Apr 2009

Lt Udham Singh (NTS-17572X), 07 Apr 2009

Lt Brijesh TA (NTS-17574H), 07 Apr 2009

Lt Devaiah MS (NTS-17577W), 07 Apr 2009

YASH PANDE

Brig

Dy DG AFMS (HR)

#### ARMY BRANCH

No. 169, dated 09th March 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

##### PERMANENT COMMISSION

##### ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Maj to Lt Col

Rank, Name, Pers No. & Date of Commission

Maj Ishwar Dass (NTR-16662M), 28 Jul 2010

Maj Sahajvir Singh (NTR-16660F), 28 Jul 2010

Maj Shyam Singh (NTR-16661K), 28 Jul 2010

#### SHORT SERVICE COMMISSION

##### ARMY MEDICAL CORPS

Maj to Lt Col

Maj (Mrs) Urmila Prasad (MS-14254H), 21 Jan 2010

Maj Vibhuti Bhatnagar (MS-14047W), 10 Aug 2010

Maj T V Sudha Mohan (MS-13787Y), 31 Aug 2010

Maj Debajyoti Bhowmik (MS-13684A), 08 Apr 2010

Maj Aneesha Singh (MS-13656N), 10 Sep 2010

Maj Yasmin Yusufzai (MS-13707W), 12 Apr 2010

Maj Dinesh Kumar (MS-13912X), 24 May 2010

Maj Vishwas Kumar Rana (MS-15583L), 08 Aug 2010

Maj Raazen Ekka (MS-13821N), 26 Jul 2010

Maj Vivek Singh (MS-14016W), 28 Apr 2010

Maj Shamit Samanta (MS-14077N), 10 Jul 2010

Maj Sridhar R (MS-14021F), 19 Jul 2010

Flt Lt to Sqd Ldr

Flt Lt Vishal Jarewal (MS-15063A/AF-28376S), 19 Apr 2009

Flt Lt Arnab Ganguly (MS-15169M/AF-28395F), 16 Jun 2009

Flt Lt Pijus Ghorai (MS-15178N/AF-28393S), 16 Jun 2009

Flt Lt Aseem Sharma (MS-15094A/AF-28387G), 17 Sep 2010

Surg Lt to Surg Lt Cdr

Surg Lt Ajay Kumar (MS-14872N/75858B), 09 Sep 2009\*

\*(forfeited one month service for the purpose of promotion)

Surg Lt Maibam Debala Chanu (MS-15159H/75897T), 16 Jan 2009

Surg Lt Sanjay Kumar (MS-15106K/75909W), 23 Dec 2009

Surg Lt Anoop Kumar Nair (MS-14919N/75880B), 27 Dec 2009

Surg Lt Sumit Banerjee (MS-15089P/75896R), 17 Sep 2010

Capt to Maj

Capt Sameena (MS-14735P), 30 Dec 2008

Capt Sudhir Kumar (MS-15092P), 17 Sep 2010

Capt Kartik Kohli (MS-15099Y), 17 Sep 2010

Capt Drona Sharma (MS-15321P), 22 Sep 2010

Capt Shvet Dutta (MS-15339L), 22 Sep 2010

Capt Lokesh Kumar (MS-15372H), 22 Sep 2010

Capt Neeraj Kumar Tiwari (MS-15378K), 22 Sep 2010

Capt Abhishek Rathore (MS-15422H), 06 Oct 2010

Capt Pajai Ravindra Kesharao (MS-15423L), 06 Oct 2010

Capt Patil Pragati Pandharinath (MS-15217F), 20 Jan 2010

Capt Prity Manhas (MS-15431K), 22 Jul 2010

Capt Bhaskar Jyoti Das (MS-15450P), 22 Jul 2010

Capt Gursale Amey Ramakant (MS-15313W), 22 Sep 2010

Capt Rakesh Kumar Mishra (MS-15314Y), 22 Sep 2010

Capt Madhurjya Barman (MS-15322X), 22 Sep 2010

Capt Deepashree (MS-15326N), 22 Sep 2010

Capt S Balasubramanian (MS-15364K), 22 Sep 2010  
 Capt Mahender Singh (MS-15377F), 22 Sep 2010  
 Capt Sharad Kumar Goel (MS-15704F), 25 Apr 2009  
 Capt Lakhan Shital Santu (MS-15219M), 20 Jan 2010  
 Capt More Amol Pandurang (MS-15235K), 21 Mar 2010  
 Capt Gaganpreet Singh (MS-15434X), 22 Jul 2010  
 Capt Tapash Biswas (MS-15440L), 22 Jul 2010  
 Capt Shridhara T R (MS-15002H), 12 Apr 2009  
 Capt Roshan Kumar B (MS-15042K), 12 Apr 2009  
 Capt Kapil Rampal (MS-15059X), 19 Apr 2009  
 Capt Tabu Maling (MS-14997L), 12 May 2009\*  
 Capt Nachiket M Palaskar (MS-15080A), 17 May 2009

\*(Forfeited one month service for the purpose of promotion)

Capt L Anupama (MS-15845W), 24 Jun 2009  
 Capt Priyadarshini Chakravarti (MS-15828W), 22 May 2010

#### PERMANENT COMMISSION ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

##### Capt to Maj

Rank, Name, Personal No. and Date of Promotion  
 Capt Rajesh R (NTR-16783N), 02 Apr 2010  
 Capt Kedare Suraj Arun (NTS-17501W), 02 Apr 2010

#### ARMY MEDICAL CORPS

##### To be Capt

Lt Anurag Haldar (MS-15973N), 11 Feb 2010  
 Lt Hitender Singh Rao (MS-15978N), 11 Feb 2010  
 Lt Chaand Ohri (MS-15953A), 11 Feb 2010  
 Lt Abhinav Singh Parihar (MS-15972L), 11 Feb 2010  
 Lt Hitesh Khanna (MS-15980K), 11 Feb 2010  
 Lt Raman Bagla (MS-15989Y), 06 Apr 2010  
 Lt Ishaan Suniara (MS-15986L), 11 Feb 2010  
 Lt Gaurav Trivedi (MS-16087W), 10 Aug 2010  
 Lt Manvinder Tejpal (MS-16088Y), 10 Aug 2010

##### To be Surg Lt

Surg Sub Lt Niharika Gupta (MS-15951P) (76008W), 11 Feb 2010

YASH PANDE  
 Brig  
 Dy DG AFMS (HR)

#### ARMY BRANCH

No. 170, dated 10 March 2011—The President is pleased to make the following promotions.

#### REGULAR ARMY

#### RECORDS THE MIR

##### To be Sub

Nb Sub (DVR AFV) Veerendra Prasad (JC-421159M), 21 Oct 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (Gunner) Bhakta Lal VK (JC-420540N), 01 Oct 2010

Nb Sub (DVR FT VEH) Ashwani Kumar (JC-420550X), 01 Oct 2010

Nb Sub (OW AFV) Ram Kishan (JC-420676X), 01 Oct 2010

Nb Sub (Gunner) Parlad Singh (JC-420703W), 09 Oct 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (DVR AFV) Digambar Singh (JC-420737K), 01 Oct 2010

Nb Sub (GNRPT) Vikram Singh Negi (JC-420749Y), 12 Oct 2010\*

\*(Granted Seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (OP Radio) Rishi Kumar Nagar (JC-420805M), 21 Oct 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (GNRPT) Jas Pal Lal (JC-420808A), 01 Oct 2010

Nb Sub (DVR AFV) Piar Chand (JC-420818K), 13 Oct 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (DVR AFV) Krishan Kant Singh (JC-420820F), 01 Oct 2010

Nb Sub (GNRPT) Mal Singh Rathore (JC-421200X), 01 Oct 2010

Nb Sub (OW AFV) Sukhdev Singh (JC-420894W), 01 Oct 2010

Nb Sub (DVR FT VEH) Surinder Singh (JC-420379K), 03 Nov 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (OW AFV) Chob Singh (JC-420464M), 01 Nov 2010

Nb Sub (OP Radio) Upendra Nath Singh (JC-420952P), 01 Nov 2010

Nb Sub (DVR AFV) OM Prakash, SM (JC-420919X), 01 Nov 2010

Nb Sub (DVR AFV) Hoshiar Singh (JC-420955H), 01 Nov 2010

Nb Sub/Clk (SD) Ashok Kumar Tripathy (JC-420691M), 01 Dec 2010

#### To be Subs (GD)

Nb Sub Pratap Singh (JC-421013Y), 22 Nov 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Arvind Kumar (JC-421062F), 24 Nov 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bhagwan Singh (JC-420772M), 23 Dec 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Moti Singh (JC-420823P), 01 Dec 2010

Nb Sub Ganpat Singh (JC-420829W), 01 Dec 2010

Nb Sub Diwan Singh (JC-420933K), 01 Dec 2010

Nb Sub Jaswant Singh (JC-421029K), 01 Dec 2010

Nb Sub Kishori Prasad (JC-421080K), 01 Dec 2010

Nb Sub Jai Singh (JC-421085H), 01 Dec 2010

Nb Sub Vinod Kumar (JC-421086L), 01 Dec 2010

Nb Sub Sat Pal (JC-421138W), 24 Dec 2010\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dewan Chand (JC-421168N), 01 Dec 2010

Nb Sub Manjeet Singh (JC-421169W), 01 Dec 2010

Nb Sub Angad Singh (JC-420863W), 01 Jan 2011

Nb Sub Sukhpal Singh (JC-421116X), 01 Jan 2011

Nb Sub Shamrao Torgal (JC-421170L), 01 Jan 2011

Nb Sub Surinder Singh (JC-421260M), 01 Jan 2011

Nb Sub Rajen Lama (JC-420776H), 01 Jan 2011

#### To be Nb Sub

Hav Kulbir Singh (No. 14918128A now JC-421740W), 01 Dec 2010\*

\*(Gtd notional seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Mukesh Kumar (No. 14914825H now JC-421741Y), 01 Dec 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Dhurwa Nath Shukla (No. 14914887H now JC-421742F), 27 Nov 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Vinod Kumar (No. 14923095K now JC-421743K), 01 Dec 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Arjun Kolambkar (No. 14917453N now JC-421744M), 06 Dec 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Jitender Singh (No. 14919510H now JC-421745P), 01 Nov 2010

Hav Ganesh Kumar Mandal (No. 14918770F now JC-421746X), 09 Dec 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Maya Kumar B (No. 14916021M now JC-421747A), 04 Dec 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Pawan Singh (No. 14918997P now JC-421748H), 01 Dec 2010

Hav Bijender Singh (No. 14919047M now JC-421749L), 01 Dec 2010

Hav Arjun Kumar Dikshit (No. 14915593F now JC-421750A), 01 Dec 2010

Hav Digvijay Singh (No. 14917330F now JC-421751H), 01 Dec 2010

Hav Bachao Yadav (No. 14918306X now JC-421752L), 01 Dec 2010

Hav Mantosh Roy Kayet (No. 14916756W now JC-421753N), 18 Dec 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Naresh Kumar (No. 14916862P now JC-421754W), 08 Dec 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Ujjal Kumar Mandal (No. 14918887A now JC-421755Y), 01 Dec 2010

Hav Mahendra Kumar (No. 14919223Y now JC-421756F), 01 Dec 2010

Hav Kamal Singh (No. 14919517M now JC-421757K), 01 Dec 2010

Hav Babban Yadava (No. 14919313A now JC-421758M), 01 Dec 2010

Hav Prahlad Singh (No. 14917144L now JC-421759P), 08 Dec 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Dilbir Singh (No. 14917273L now JC-421760K), 08 Dec 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Umesh Chandra Singh (No. 14919320W now JC-421761M), 01 Dec 2010

Hav Shiv Karan Singh (No. 14919622H now JC-421762P), 01 Dec 2010

Hav Munnu (No. 14916509H now JC-421763X), 01 Dec 2010

Hav Sanjai Kumar Pandey (No. 14918800N now JC-421764A), 01 Dec 2010

Hav Phool Chand (No. 14918805M now JC-421765H), 01 Dec 2010

Hav Sumanth Kumar KK (No. 14918847Y now JC-421766L), 01 Dec 2010

Hav Mahesh Kumar (No. 14918871P now JC-421767N), 01 Dec 2010

Hav Dhruba Charan Das (No. 14918885P now JC-421768W), 01 Dec 2010

Hav Raj Kapoor (No. 14917033N now JC-421769Y), 01 Jan 2011

Hav/Clk (SD) Pintu Hui (No. 14916656L now JC-421770N), 01 Dec 2010

Hav/Clk (SD) Harjinder Kumar (No. 14916778P now JC-421771W), 01 Jan 2011

J ROY CHOWDHARY  
Under Secy

#### CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

No. 171, dated 10th March 2011—The President is pleased to make the following Appointment/Promotions :—

Hav to be Nb Sub Dvr (MT)

Hare Krishan Rai (No. 14584845A now JC-765193L), 01 Sep 2010

Ashwana Kumar Samal (No. 14585262K now JC-765194N), 01 Sep 2010

Ramesh Chander Tailor (No. 14585340W now JC-765195W), 01 Sep 2010

Rajendra Singh (No. 14586098Y now JC-765196Y), 01 Sep 2010

Ram Naresh (No. 14586110P now JC-765274L), 01 Sep 2010

Mohan Yadav (No. 14585406F now JC-765275N), 01 Sep 2010

Hav to be Nb Sub Mach

Har Singh Khadayat (No. 14582885H now JC-765197F), 01 Sep 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech Networking

Om Prakash Tiwari (No. 14616981M now JC-765213N), 01 Sep 2010

Manohar Lal (No. 14616983X now JC-765214W), 01 Sep 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech A Veh

Ravinder Kumar (No. 14616467H now JC-765217K), 01 Sep 2010

N C Shekhar Sadashio Rao (No. 14616915K now JC-765218M), 01 Sep 2010

Shinde Sanjay Rajaram (No. 14618052M now JC-765220K), 01 Sep 2010

Ram Pal Singh Jadoon (No. 14618153A now JC-765221M), 01 Sep 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech B Veh

Ashok Kumar Roy (No. 14619476P now JC-765222P), 04 Sep 2010/01 Sep 2010\*

Hav to be Nb Sub Master Tech Opto Elect

Darshan Kumar Lohani (No. 14614986M now JC-765223X), 01 Sep 2010

Hav to be Nb Sub Master Tech Comm

Gurdeep Singh (No. 14623810H now JC-765224A), 01 Sep 2010

Joginder Pal Sharma (No. 14624280L now JC-765225H), 01 Sep 2010

Khadage Navanath Nivrutt (No. 14624547P now JC-765228W), 01 Sep 2010

Sakhare Kisan Manik (No. 14624577M now JC-765229Y), 06 Sep 2010/01 Sep 2010\*

T Kamatchi (No. 14624607Y now JC-765230N), 01 Sep 2010

## Hav to be Nb Sub Opr &amp; Dvr (REC)

Sanjay Kumar Tiwari (No. 14583173M now JC-765241A), 01 Sep 2010

Kanhaiya (No. 14583332Y now JC-765242H), 01 Sep 2010

Harihar Singh (No. 14583553L now JC-765243L), 01 Sep 2010

## Hav to be Nb Sub Clk (SD)

Shibu M S (No. 14589830F now JC-765251K), 01 Sep 2010

Satya Pal Singh (No. 14589619M now JC-765252M), 01 Sep 2010

Hira Singh (No. 14589864P now JC-765254X), 01 Sep 2010

Anil Kumar (No. 14589652K now JC-765255A), 01 Sep 2010

Vijay Kumar Mishra (No. 14589691H now JC-765258N), 01 Sep 2010

## Hav to be Nb Sub Skt

Gain Singh (No. 14613071N now JC-765265K), 01 Sep 2010

Bipin Kumar (No. 14589700Y now JC-765267P), 01 Sep 2010

Balwinder Singh (No. 14613557Y now JC-765268X), 01 Sep 2010

Vinod Kumar (No. 14587607Y now JC-765269A), 01 Sep 2010

## Hav to be Nb Sub Support Staff (ER)

Ram Avtar (No. 14630778F now JC-765278F), 01 Sep 2010

Sanjay Kumar Singh (No. 14577056L now JC-765279K), 01 Sep 2010

## Hav to be Nb Sub Tech Opto (Elect)

Ram Chandra Pal (No. 14578973F now JC-765281A), 20 Aug 2010/01 Aug 2010\*

Patil Krishna Tukaram (No. 14580800H now JC-765283M), 01 Sep 2010

## Hav to be Nb Sub Tech SA

Wanjari Rajkumar Motiram (No. 14595298W now JC-765284P), 01 Sep 2010

\*(Gtd ante dated seniority)

N K KASHMIRA  
Under Secy

## ARMY BRANCH

No. 172, dated 10th March 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## ARMOURED CORPS

## To be Subs Ris Maj

Ris Triveni Prasad Patel (JC-238063W), 01 Apr 2010

Ris Girraj Prasad (JC-240601X), 01 May 2010

Ris Ajit Singh (JC-240935M), 01 Jul 2010

Ris Tirath Singh (JC-241424P), 01 Jul 2010

Ris Kushal Pal Singh (JC-239870X), 01 Jul 2010

Ris Kalu Ram (JC-240273P), 01 Jun 2010

Ris Magar Singh (JC-239475K), 08 Jul 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Ris Bhanwar Singh (JC-240621L), 03 Jul 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Ris Rajpal Singh (JC-240604L), 01 Sep 2010

Ris Hanumant Prasad (JC-241275M), 17 Aug 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Ris Chakrapani Goutam Bhanji (JC-241669L), 01 Oct 2010

Ris Mukhtiar Singh (JC-241668H), 10 Aug 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Ris Shri Pal Singh (JC-240250N), 01 Oct 2010

Ris Ramdeen (JC-240002X), 01 Nov 2010

Ris Bhanwar Lal Dudi (JC-239755X), 01 Oct 2010

Ris/Clk Rajesh Kumar Pandey (JC-239509M), 04 Oct 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Ris/SKT Ajaya Kumar B (JC-238098M), 16 Apr 2010\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub Ris

Ex Dfr Ram Singh (No. 10403004M now JC-244981Y),  
18 Jan 1989

J ROY CHOWDHARY  
Under Secy

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 173, dated 11th March 2011—The President is please  
to make the following appointment for a period of 5 years  
under AI 75/78 as amended :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Flt Lt

Flt Lt Yatender Kumar Chaudhry MS-14948H (AF-  
27664), Date of Commission 05-10-2004

The antedate seniority DGN in r/o above named officer  
passed on 07 Dec 2007 and published on 19 Jan 2008 is  
amended as follows :—

For : with seniority for pay and promotion from 05 Oct  
2001

Read : with seniority for pay and promotion from  
05 Apr 2001

The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS

Capt to Maj

CORRIGENDA

The Date of Promotion in respect of MS-13684A Maj  
Debajyoti Bhowmik at Serial No. 08 of the Gazette  
Notification published on 18 Sep 2004 is amended as  
follows :—

For : With effect from 08-10-2003

Read : With effect from 08-04-2003

The Date of Promotion in respect of MS-14254H  
Maj (Mrs) Urmila Prasad at Serial No. 03 of the Gazette  
Notification published on 30 Apr 2005 is amended as  
follows :—

For : With effect from 24-09-2003

Read : With effect from 21-01-2003

The officer has been granted notional seniority with effect  
from 21 Jan 1999 without Pay and Allowances which will  
count for Promotion and not for Gratuity.

YASH PANDE

Brig  
Dy DG AFMS (HR)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2011

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2011